



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022025-260821  
CG-DL-E-07022025-260821

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 656]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

का.आ. 660(अ).— भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ(2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र. सं.	दवाइयाँ	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ट्रेनेक्सैमिक एसिड और मेफेनैमिक एसिड की गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: ट्रेनेक्सैमिक एसिड आईपी 500 मिलीग्राम मेफेनैमिक एसिड आईपी 250 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड/मैसर्स ग्लेनस्मिथ लैब्स प्रा. लिमिटेड	32.57
2	सिटारिलिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (सस्टेन्ड रिलीज़) गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित द्विस्तरीय गोली में: सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सीतारिलिप्टिन 100 मि.ग्रा के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम (सस्टेन्ड रिलीज़ के रूप में)	1 गोली	मैसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड/मैसर्स प्राइमस रेमेडीज़ प्रा. लिमिटेड	12.84
3	डेपाग्लिफ्लोज़िन, ग्लिमैपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड एक्स्टेंडेड रिलीज़) गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित द्विस्तरीय गोली में: डेपाग्लिफ्लोज़िन प्रोपेनेडिओल यूएसपी डेपाग्लिफ्लोज़िन 10 मिलीग्राम के बराबर, ग्लिमैपिराइड आईपी 1 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम एक्स्टेंडेड रिलीज़)	1 गोली	मैसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्रा. लिमिटेड/मैसर्स ला रेनॉन हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	12.31
4	डेपाग्लिफ्लोज़िन, ग्लिमैपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एक्स्टेंडेड रिलीज़) गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित द्विस्तरीय गोली में: डेपाग्लिफ्लोज़िन प्रोपेनेडिओल यूएसपी डेपाग्लिफ्लोज़िन 10 मिलीग्राम के बराबर, ग्लिमैपिराइड आईपी 2 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम एक्स्टेंडेड रिलीज़)	1 गोली	मैसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्रा. लिमिटेड/मैसर्स ला रेनॉन हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	12.62
5	ग्लिमैपिराइड, वोग्लिबोस और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (सस्टेन्ड रिलीज़) गोलियाँ	प्रत्येक बिना लेपित द्विस्तरीय गोली में: ग्लिमैपाइराइड आईपी 0.5 मिलीग्राम, वोग्लिबोस आईपी 0.2 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (सस्टेन्ड रिलीज़ के रूप में) 500 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड/मैसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड	9.12
6	बिक्टेग्रेविर, एमट्रिसिटाबाइन और टेनोफोविर अलाफेनमाइड गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: बिक्टेग्रेविर सोडियम बिक्टेग्रेविर 50 मिलीग्राम के बराबर, एमट्रिसिटाबाइन आईपी 200 मिलीग्राम, टेनोफोविर अलाफेनमाइड फ्यूमरेट आईपी टेनोफोविर एलाफेनमाइड 25 मि.ग्रा के बराबर	1 गोली	मैसर्स हेटेरो लैब्स लिमिटेड / मैसर्स सिप्ला लिमिटेड	132.58

क्र. सं.	दवाइयाँ	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	ग्लिमेपाइराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (सस्टेन्ड रिलीज़) गोलियाँ	<b>प्रत्येक बिना लेपित द्विस्तरीय गोली में:</b> ग्लिमेपिराइड आईपी 1 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (सस्टेन्ड रिलीज़ के रूप में) 1000 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स जर्मन रेमेडीज़ फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड	9.40
8	ग्लिमेपाइराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (सस्टेन्ड रिलीज़) गोलियाँ	<b>प्रत्येक बिना लेपित द्विस्तरीय गोली में:</b> ग्लिमेपिराइड आईपी 3 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (सस्टेन्ड रिलीज़ के रूप में) 1000 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स जर्मन रेमेडीज़ फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड	12.03
9	ग्लिमेपाइराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (सस्टेन्ड रिलीज़) गोलियाँ	<b>प्रत्येक बिना लेपित द्विस्तरीय गोली में:</b> ग्लिमेपिराइड आईपी 4 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (सस्टेन्ड रिलीज़ के रूप में) 1000 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स जर्मन रेमेडीज़ फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड	12.39
10	एम्पाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> एम्पाग्लिफ्लोजिन 5 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड	15.84
11	एम्पाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> एम्पाग्लिफ्लोजिन 12.5 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड	18.1
12	एम्पाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> एम्पाग्लिफ्लोजिन 12.5 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड	19.01
13	एम्पाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> एम्पाग्लिफ्लोजिन 5 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड	11.38
14	लाइनज़ोलिड ओरल सस्पेंशन के लिए	<b>प्रत्येक 5 मिलीलीटर के गठित निलंबन में:</b> लाइनज़ोलिड आईपी 100 मिलीग्राम	1 मि.ली	मैसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड/ मैसर्स जर्मन रेमेडीज़ फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड	3.86
15	टेल्लिसार्टन, सिल्लीडिपिन और क्लोरथालिडोन गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> टेल्लिसार्टन आईपी 40 मिलीग्राम सिल्लीडिपिन आईपी 10 मिलीग्राम क्लोरथालिडोन आईपी 12.50 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड / मैसर्स कोरोना रेमेडीज़ प्रा. लिमिटेड	15.07

क्र. सं.	दवाइयाँ	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	टेलिमसार्टन, सिल्लीडिपिन और क्लोरथालिडोन गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> टेलिमसार्टन आईपी 40 मिलीग्राम सिल्लीडिपिन आईपी 10 मिलीग्राम क्लोरथालिडोन आईपी 12.50 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। /मैसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।	14.69
17	टेलिमसार्टन और हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड गोलियाँ	<b>प्रत्येक बिना लेपित द्विस्तरीय गोली में:</b> टेलिमसार्टन आईपी 40 मिलीग्राम, हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड आईपी 12.5 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स सानो-सिटो थैरेप्यूटिक्स इंक-यूनिट-III/मैसर्स जुवेंटस हेल्थकेयर लिमिटेड	11.43
18	एटोरवास्टेटिन और एज़ेटिमीब गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम के रूप में, एज़ेटिमीब आईपी 10 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड/मैसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	53.7
19	एटोरवास्टेटिन और एज़ेटिमीब गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम के रूप में, एज़ेटिमीब आईपी 10 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड/ मैसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	53.7
20	डिक्लोफेनाक सोडियम, पेरासिटामोल और क्लोरज़ोक्साज़ोन गोलियाँ	<b>प्रत्येक बिना लेपित गोली में:</b> डिक्लोफेनाक सोडियम आईपी 50 मिलीग्राम, पेरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम क्लोरज़ोक्साज़ोन यूएसपी 250 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स आज्ञा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड/ मैसर्स मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	6.55
21	लेवेतिरसेटम गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> लेवेतिरसेटम आईपी 1000 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	35.94
22	क्विलंडामाइसिन और निकोटिनमाइड जेल	<b>संरचना:</b> क्विलंडामाइसिन फॉस्फेट आईपी क्विलंडामाइसिन 1.0% w/w के बराबर, निकोटिनमाइड आईपी 4.0% w/w	1 ग्राम	मैसर्स पिल्को हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड /मैसर्स ग्लेनस्मिथ लैब्स प्रा. लिमिटेड	7.35
23	सेफैड्रोक्सिल और पोटेशियम क्लैवुलैनेट डिस्पर्सिबल गोलियाँ	<b>प्रत्येक बिना लेपित डिस्पर्सिबल गोली में:</b> सेफैड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट आईपी निर्जल सेफैड्रोक्सिल 250 मि.ग्रा के बराबर, पोटेशियम क्लैवुलैनेट डाइलुटेड आईपी क्लैवुलैनीक एसिड 62.5 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मैसर्स इनोवा कैपटैब लिमिटेड / मैसर्स इंडोको रेमेडीज़ लिमिटेड।	9.72

क्र. सं.	दवाइयाँ	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	सेफैड्रोक्सिल और पोटेशियम क्लैवुलैनेट गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> सेफैड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट आईपी निर्जल सेफैड्रोक्सिल 500 मि.ग्रा के बराबर, पोटेशियम क्लैवुलैनेट डाइलुटेड आईपी क्लैवुलैनीक एसिड 125 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मैसर्स इनोवा कैपटैब लिमिटेड / मैसर्स इंडोको रेमेडीज़ लिमिटेड।	17.61
25	बिलास्टाइन और मोंटेलुकास्ट सस्पेंशन	<b>प्रत्येक 5 मिलीलीटर सस्पेंशन में:</b> बिलास्टीन आईपी 10 मिलीग्राम मोंटेलुकैस्ट सोडियम आईपी मोंटेलुकास्ट 4 मिलीग्राम के बराबर	1 मि.ली	मैसर्स सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स इंटॉस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	1.69
26	एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलैनेट ओरल सस्पेंशन	<b>प्रत्येक 5 मिलीलीटर के पुनर्गठित निलंबन में:</b> एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट आईपी एमोक्सिसिलिन 600 मि.ग्रा के बराबर, पोटेशियम क्लैवुलैनेट डाइलुटेड आईपी क्लैवुलैनीक एसिड 42.9 मिलीग्राम के बराबर,	1 मि.ली	मैसर्स मलिक लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड/ मैसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड	2.68
27	एस्पिरिन गैस्ट्रो-प्रतिरोधी और एटोरवास्टेटिन कैप्सूल	<b>प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में:</b> एस्पिरिन आईपी 75 मिलीग्राम (गैस्ट्रो-प्रतिरोधी गोली आईपी के रूप में) एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 40 मिलीग्राम के बराबर	1 कैप्सूल	मैसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड / मैसर्स इंटॉस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।	18.27
28	बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट और एम्लोडिपाइन बेसिलेट गोलियाँ	<b>प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:</b> बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट आईपी 2.5 मिलीग्राम एम्लोडिपाइन बेसिलेट आईपी एम्लोडिपाइन 5 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मैसर्स मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	6.26
29	पैरासिटामोल, फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट गोलियाँ	<b>प्रत्येक बिना लेपित गोली में:</b> पैरासिटामोल आईपी 500 मिलीग्राम फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 10 मिलीग्राम क्लोरफेनिरामाइन मैलेट आईपी 2 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स ईस्ट अफ्रीकन (इंडिया) ओवरसीज /मैसर्स मेडले फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।	4.81
30	पैरासिटामोल, फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन और डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ	<b>प्रत्येक बिना लेपित गोली में:</b> पैरासिटामोल आईपी 500 मिलीग्राम फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 5 मिलीग्राम, डिफेनहाइड्रामाइन एचसीएल आईपी 25 मिलीग्राम, कैफीन आईपी (निर्जल) 30 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स जुगाट फार्मा (जगडेल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का फार्मा डिवीजन)	4.22

क्र. सं.	दवाइयाँ	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	पेरासिटामोल और मेफेनैमिक एसिड सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मिलीलीटर में: मेफेनैमिक एसिड आईपी 100 मिलीग्राम पेरासिटामोल आईपी 250 मिलीग्राम	1 मि.ली	मैसर्स याक्का लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड/ मैसर्स इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।	0.88
32	पेरासिटामोल और मेफेनैमिक एसिड सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मिलीलीटर में: मेफेनैमिक एसिड आईपी 100 मिलीग्राम पेरासिटामोल आईपी 250 मिलीग्राम	1 मि.ली	मैसर्स शिवा बायोजेनेटिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। /मैसर्स अरिस्टो लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड	0.88
33	पेरासिटामोल और मेफेनैमिक एसिड सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मिलीलीटर में: मेफेनैमिक एसिड आईपी 50 मिलीग्राम पेरासिटामोल आईपी 125 मिलीग्राम	1 मि.ली	मैसर्स शिवा बायोजेनेटिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। /मैसर्स अरिस्टो लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड	0.73
34	पेरासिटामोल और पोलमाकोक्सीब गोलियाँ	प्रत्येक बिना लेपित गोली में: पेरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम पोल्माकोक्सीब आईएच 2 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स हेटेरो लैब्स लिमिटेड/ मैसर्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड	15.26
35	पेरासिटामोल और पोलमाकोक्सीब गोलियाँ	प्रत्येक बिना लेपित गोली में: पेरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम पोल्माकोक्सीब आईएच 2 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स हेटेरो लैब्स लिमिटेड/ मैसर्स एबॉट हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	15.26
36	पेरासिटामोल और पोलमाकोक्सीब गोलियाँ	प्रत्येक बिना लेपित गोली में: पेरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम पोल्माकोक्सीब आईएच 2 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स हेटेरो लैब्स लिमिटेड/मैसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड।	15.26
37	पेरासिटामोल और पोलमाकोक्सीब गोलियाँ	प्रत्येक बिना लेपित गोली में: पेरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम पोल्माकोक्सीब आईएच 2 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स हेटेरो लैब्स लिमिटेड / मैसर्स टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।	15.26
38	बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट और एम्लोडिपाइन बेसिलेट गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट आईपी 5 मिलीग्राम एम्लोडिपाइन बेसिलेट आईपी एम्लोडिपाइन 5 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मैसर्स मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	8.54
39	सेटीरिजिन ड्रॉप्स	प्रत्येक मिलीलीटर में: सेटीरिजिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 10 मिलीग्राम	1 मि.ली	मैसर्स जुवेंटस हेल्थकेयर लिमिटेड	7.78

क्र. सं.	दवाइयाँ	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	टेलिमसर्टन, सिल्लिन्डिपाइन और क्लोथालिडोन गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 40 मिलीग्राम सिल्लिन्डिपाइन आईपी 10 मिलीग्राम क्लोथालिडोन आईपी 6.25 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। /मैसर्स जर्मन रेमेडीज़ फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड	14.92
41	एटोरवास्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन कैप्सूल	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में : एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 10 मिलीग्राम के बराबर (पेलेट के रूप में) क्लोपिडोग्रेल बिसल्फेट आईपी क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्रामके बराबर (पेलेट के रूप में) एस्पिरिन आईपी 75 मिलीग्राम (एंटरिक लेपित पेलेट के रूप में)	1 कैप्सूल	मैसर्स सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड	5.75
42	एटोरवास्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन कैप्सूल	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में : एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 20 मिलीग्राम के बराबर (पेलेट के रूप में) क्लोपिडोग्रेल बिसल्फेट आईपी क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्रामके बराबर (पेलेट के रूप में) एस्पिरिन आईपी 75 मिलीग्राम (एंटरिक लेपित पेलेट के रूप में)	1 कैप्सूल	मैसर्स सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड	7.95

**नोट:**

- (क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के निर्माता अर्थात जो “नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(1)(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित खुदरा कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है तो वे वस्तु एव सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी प्रति राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

- (ड) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती है तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (छ) इस आदेश में उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट विनिर्माण और विपणन कंपनियों की स्ट्रेथ और नाम के साथ, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट ऐसे फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य के निर्धारण के परिणामस्वरूप, कॉलम (2), (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा निर्दिष्ट उस विनिर्माण और विपणन कंपनियों के लिए निर्दिष्ट स्ट्रेथ के साथ फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य को निर्धारित करने वाले कोई मूल्य आदेश यदि इस अधिसूचना से पहले जारी किए गए हो, तो उसे इसका स्थान लिया माना जाएगा।

[पीएन/261/129/2025/एफ/फा. सं. 8(129)/2025/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**

**(Department of Pharmaceuticals)**

**(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)**

**ORDER**

New Delhi, the 7th February, 2025

**S.O. 660(E).**— In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30<sup>th</sup> May, 2013 and S. O. 5249(E) dated 11<sup>th</sup> November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the Table herein below as the retail price, exclusive of Goods and Services Tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

**TABLE**

S. No.	Medicines	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tranexamic Acid and Mefenamic Acid tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Tranexamic Acid IP 500 mg Mefenamic Acid IP 250 mg	1 Tablet	M/s Skymap Pharmaceuticals Pvt. Ltd./ M/s Glensmith Labs Pvt. Ltd.	32.57
2	Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (Sustained Release) tablets	<b>Each film coated bilayered tablet contains:</b> Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 100 mg	1 Tablet	M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Primus Remedies Pvt. Ltd.	12.84



S. No.	Medicines	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Metformin Hydrochloride IP 500 mg (as Sustained Release)			
3	Dapagliflozin, Glimepiride, Metformin Hydrochloride (extended release) tablets	<b>Each film coated bilayered tablet contains:</b> Dapagliflozin Propanediol USP eq. to Dapagliflozin 10 mg, Glimepiride IP 1 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg (As Extended Release)	1 Tablet	M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd./ M/s La Renon Healthcare Pvt. Ltd.	12.31
4	Dapagliflozin, Glimepiride, Metformin Hydrochloride (Extended Release) tablets	<b>Each film coated bilayered tablet contains:</b> Dapagliflozin Propanediol USP eq. to Dapagliflozin 10 mg, Glimepiride IP 2 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg (as Extended Release)	1 Tablet	M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd./ M/s La Renon Healthcare Pvt. Ltd.	12.62
5	Glimepiride, Voglibose & Metformin Hydrochloride (SR) tablets	<b>Each uncoated bilayered tablet contains:</b> Glimepiride IP 0.5 mg, Voglibose IP 0.2 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg (as Sustained Release form)	1 Tablet	M/s Windlas Biotech Limited/ M/s Mankind Pharma Ltd.	9.12
6	Bictegravir, Emtricitabine & Tenofovir Alafenamide Tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Bictegravir Sodium eq. to Bictegravir 50 mg, Emtricitabine IP 200 mg Tenofovir Alafenamide Fumarate IP eq. to Tenofovir Alafenamide 25 mg	1 Tablet	M/s Hetero Labs Limited / M/s Cipla Ltd.	132.58
7	Glimepiride & Metformin Hydrochloride (SR) tablets	<b>Each uncoated bilayered tablet contains:</b> Glimepiride IP 1 mg Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as Sustained Release form)	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	9.40
8	Glimepiride & Metformin Hydrochloride (SR) tablets	<b>Each uncoated bilayered tablets contains:</b> Glimepiride IP 3 mg, Metformin HCl IP 1000mg (Sustained Release form)	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd./ M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	12.03
9	Glimepiride & Metformin Hydrochloride (SR) tablets	<b>Each uncoated bilayered tablets contains:</b> Glimepiride IP 4 mg, Metformin HCl IP 1000mg (as Sustained Release form)	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd./ M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	12.39
10	Empagliflozin & Metformin Hydrochloride tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Empagliflozin 5 mg Metformin Hydrochloride IP 500 mg	1 Tablet	M/s Micro Labs Ltd.	15.84
11	Empagliflozin & Metformin	<b>Each film coated tablet contains:</b> Empagliflozin 12.5 mg	1 Tablet	M/s Micro Labs Ltd.	18.10

S. No.	Medicines	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hydrochloride tablets	Metformin Hydrochloride IP 500 mg			
12	Empagliflozin & Metformin Hydrochloride tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Empagliflozin 12.5 mg Metformin Hydrochloride IP 1000 mg	1 Tablet	M/s Micro Labs Ltd.	19.01
13	Empagliflozin & Metformin Hydrochloride tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Empagliflozin 5 mg Metformin Hydrochloride IP 1000 mg	1 Tablet	M/s Micro Labs Ltd.	11.38
14	Linezolid for Oral Suspension	<b>Each 5 ml of constituted suspension contains:</b> Linezolid IP 100 mg	1 ml	M/s Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	3.86
15	Telmisartan, Cilnidipine & Chlorthalidone tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Telmisartan IP 40 mg, Cilnidipine IP 10 mg, Chlorthalidone IP 12.50 mg	1 Tablet	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Corona Remedies Pvt. Ltd.	15.07
16	Telmisartan, Cilnidipine & Chlorthalidone tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Telmisartan IP 40 mg Cilnidipine IP 10 mg Chlorthalidone IP 6.25 mg	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. /M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd.	14.69
17	Telmisartan & Hydrochlorothiazide tablets	<b>Each uncoated bilayered tablet contains:</b> Telmisartan IP 40mg, Hydrochlorothiazide IP 12.5 mg	1 Tablet	M/s Sano-Cito Therapeutics Inc-Unit-II / M/s Zuventus Healthcare Ltd.	11.43
18	Atorvastatin & Ezetimibe tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 80 mg, Ezetimibe IP 10 mg	1 Tablet	M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd.	53.70
19	Atorvastatin & Ezetimibe tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 80 mg, Ezetimibe IP 10 mg	1 Tablet	M/s Windlas Biotech Ltd. / M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd.	53.70
20	Diclofenac Sodium, Paracetamol & Chlorzoxazone tablets	<b>Each uncoated tablet contains:</b> Diclofenac Sodium IP 50mg, Paracetamol IP 325mg Chlorzoxazone USP 250mg	1 Tablet	M/s Aagya Biotech Pvt. Ltd./ M/s Macleods Pharmaceuticals Ltd.	6.55
21	Levetiracetam tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Levetiracetam IP 1000 mg	1 Tablet	M/s Macleods Pharmaceuticals Ltd.	35.94
22	Clindamycin & Nicotinamide gel	<b>Composition:</b> Clindamycin Phosphate IP eq. to Clindamycin 1.0% w/w Nicotinamide IP 4.0% w/w	1 Gm	M/s Pilco Healthcare Pvt. Ltd. /M/s	7.35

S. No.	Medicines	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Glensmith Labs Pvt. Ltd	
23	Cefadroxil & Potassium Clavulanate dispersible tablets	<b>Each uncoated dispersible tablet contains:</b> Cefadroxil Monohydrate IP eq. to Anhydrous Cefadroxil 250 mg Potassium Clavulanate Diluted IP eq. to Clavulanic Acid 62.5 mg	1 Tablet	M/s Innova Captab Limited / M/s Indoco Remedies Ltd.	9.72
24	Cefadroxil & Potassium Clavulanate tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Cefadroxil Monohydrate IP eq. to Anhydrous Cefadroxil 500 mg Potassium Clavulanate Diluted IP eq. to Clavulanic Acid 125 mg	1 Tablet	M/s Innova Captab Limited / M/s Indoco Remedies Ltd.	17.61
25	Bilastine & Montelukast Suspension	<b>Each 5 ml suspension contains:</b> Bilastine IP 10 mg Montelukast Sodium IP eq. To Montelukast 4mg	1 ml	M/s Synokem Pharmaceuticals Limited / M/s Intas Pharmaceuticals Limited	1.69
26	Amoxicillin & Potassium Clavulanate Oral Suspension	<b>Each 5 ml of reconstituted suspension contains:</b> Amoxicillin Trihydrate IP eq. to Amoxicillin 600 mg Potassium Clavulanate Diluted IP eq. to Clavulanic Acid 42.9 mg	1 ml	M/s Malik Lifesciences Pvt. Ltd./ M/s Aurobindo Pharma Ltd.	2.68
27	Aspirin gastro-resistant & Atorvastatin capsules	<b>Each hard gelatin capsule Contain:</b> Aspirin IP 75 mg (as gastro-resistant tablet IP) Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 40 mg	1 Capsule	M/s Windlas Biotech Ltd. / M/s Intas Pharmaceuticals Ltd.	18.27
28	Bisoprolol Fumarate and Amlodipine Besilate tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Bisoprolol Fumarate IP 2.5 mg Amlodipine besilate IP eq. to Amlodipine 5 mg	1 Tablet	M/s Macleods Pharmaceuticals Ltd.	6.26
29	Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride & Chlorpheniramine Maleate Tablets	<b>Each uncoated tablet contains:</b> Paracetamol IP 500mg Phenylephrine Hydrochloride IP 10mg Chlorpheniramine Maleate IP 2 mg	1 Tablet	M/s East African (India) Overseas /M/s Medley Pharmaceuticals Ltd.	4.81
30	Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride, Caffeine & Diphenhydramine HCl tablets	<b>Each uncoated tablet contains:</b> Paracetamol IP 500mg Phenylephrine Hydrochloride IP 5 mg Diphenhydramine HCl IP 25 mg Caffeine IP (anhydrous) 30 mg	1 Tablet	M/s Juggat Pharma (Pharma Division of Jagdale Industries Pvt. Ltd.)	4.22
31	Paracetamol & Mefenamic Acid Suspension	<b>Each 5 ml contains:</b> Paracetamol IP 250 mg Mefenamic Acid IP 100 mg	1 ml	M/s Yacca Lifesciences Pvt. Ltd./ M/s Intas Pharmaceuticals Ltd.	0.88
32	Mefenamic Acid & Paracetamol Suspension	<b>Each 5 ml contains:</b> Mefenamic Acid IP 100 mg Paracetamol IP 250 mg	1 ml	M/s Shiva Biogenetic Pharmaceuticals Pvt. Ltd. /M/s Aristo	0.88

S. No.	Medicines	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Laboratories Pvt. Ltd.	
33	Mefenamic Acid & Paracetamol Suspension	<b>Each 5 ml contains:</b> Mefenamic Acid IP 50 mg Paracetamol IP 125 mg	1 ml	M/s Shiva Biogenetic Pharmaceuticals Pvt. Ltd. /M/s Aristo Laboratories Pvt. Ltd.	0.73
34	Paracetamol & Polmacoxib tablets	<b>Each uncoated tablet contains:</b> Paracetamol IP 325 mg Polmacoxib IH 2 mg	1 Tablet	M/s Hetero Labs Ltd./ M/s Micro Labs Ltd.	15.26
35	Paracetamol & Polmacoxib tablets	<b>Each uncoated tablet contains:</b> Paracetamol IP 325 mg Polmacoxib IH 2 mg	1 Tablet	M/s Hetero Labs Ltd./ M/s Abbott Healthcare Pvt. Ltd.	15.26
36	Paracetamol & Polmacoxib tablets	<b>Each uncoated tablet contains:</b> Paracetamol IP 325 mg Polmacoxib IH 2 mg	1 Tablet	M/s Hetero Labs Limited/ M/s Mankind Pharma Ltd.	15.26
37	Polmacoxib and Paracetamol tablets	<b>Each uncoated tablet contains:</b> Paracetamol IP 325 mg Polmacoxib IH 2 mg	1 Tablet	M/s Hetero Labs Limited / M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd.	15.26
38	Bisoprolol Fumarate and Amlodipine besilate tables	<b>Each film coated tablet contains:</b> Bisoprolol Fumarate IP 5 mg Amlodipine besilate IP eq. to Amlodipine 5 mg	1 Tablet	M/s Macleods Pharmaceuticals Ltd.	8.54
39	Cetirizine Drops	<b>Each ml contains:</b> Cetirizine Hydrochloride IP 10 mg	1 ml	M/s Zuventus Healthcare Ltd.	7.78
40	Telmisartan, Cilnidipine & Chlorthalidone tablets	<b>Each film coated tablet contains:</b> Telmisartan IP 40 mg Cilnidipine IP 10 mg Chlorthalidone IP 6.25 mg	1 Tablet	M/s Skymap Pharmaceuticals Pvt. Ltd. /M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	14.92
41	Atorvastatin, Clopidogrel & Aspirin Capsules	<b>Each hard gelatin capsule contains:</b> Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 10 mg (As Pellets) Clopidogrel Bisulphate IP eq. to Clopidogrel 75 mg (As Pellets) Aspirin IP 75 mg (as enteric coated Pellets)	1 Capsule	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Ipca Laboratories Ltd.	5.75
42	Atorvastatin, Clopidogrel & Aspirin Capsules	<b>Each hard gelatin capsule contains:</b> Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 20 mg (As Pellets) Clopidogrel Bisulphate IP eq. to Clopidogrel 75 mg (As Pellets) Aspirin IP 75 mg (as enteric coated Pellets)	1 Capsule	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Ipca Laboratories Ltd.	7.95

**Notes:**

- (a) The manufacturer of above-mentioned formulations i.e., “new drug” under paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table herein above.
- (b) The manufacturer may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.
- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (g) Consequent to the fixation of retail price of such formulation as specified in column (2) of the above table with the strength and name of Manufacturer & Marketing Companies specified in the corresponding entries in Column (3) & (5) thereof, the price order(s) fixing the retail price of the formulation with specified strength for that Manufacturer & Marketing Companies as specified in corresponding entries in Column (2), (3) and (5) thereof, if any, issued prior to this notification, stand(s) superseded.

[PN/261/129/2025/F/F. No. 8(129)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director